



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 16, 2003/पौष 26, 1924

No. 26]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2003/PAUSA 26, 1924

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 36(अ).—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं उत्पादन) नियम, 1957 का और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ होना—**

(1) इन नियमों को केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं उत्पादन) संशोधन नियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं उत्पादन) नियम, 1957 में, नियम 12 के उपनियम (10) के खंड (क) के अंत में निम्नोक्त परन्तुक

अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बशर्ते कि किसी व्यापारी का दावा धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित हो, व्यापारी फार्म-एच का केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उस प्राधिकारी से विधिवत् रूप से प्रति हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित करवायेगा जिसे विशेष आर्थिक जोन में इकाई की स्थापना करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो [सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 76क के तहत अधिसूचित] कि माल की बिक्री ऐसे जोन में एक इकाई की स्थापना करने के प्रयोजनार्थ है तथा इस नियम के तहत निर्धारित फार्म-एच आवश्यक परिवर्तनों सहित व्यापारी की घोषणा पर लागू होगा तथा प्रमाणपत्र, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 76क के अंतर्गत अधिसूचित उक्त प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा”।

[सं. 1/2003-बि. क. फा. सं. 31/72/2001-बि. क.]

अभय त्रिपाठी, निदेशक (बिक्री कर)

**पाद टिप्पणी :** केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रीकरण एवं उत्पादन) नियम, 1957, दिनांक 28-2-1957 को सा. का. नि. 644 के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए हैं :—

1. एसआरओ 3613 दिनांक 16-11-1957
2. एसआरओ 896 दिनांक 23-09-1958
3. एसआरओ 2817 दिनांक 04-11-1968
4. सा. का. नि. 55(अ) दिनांक 09-02-1973
5. सा. का. नि. 56(अ) दिनांक 09-02-1973
6. सा. का. नि. 519(अ) दिनांक 13-12-1973
7. सा. का. नि. 26(अ) दिनांक 01-02-1974

8. सा. का. नि. 597(अ) दिनांक 30-12-1975
9. सा. का. नि. 962(अ) दिनांक 30-12-1976
10. सा. का. नि. 762(अ) दिनांक 17-12-1977
11. सा. का. नि. 603(अ) दिनांक 30-12-1978
12. सा. का. नि. 640(अ) दिनांक 23-04-1979
13. सा. का. नि. 264(अ) दिनांक 01-04-1984
14. सा. का. नि. 395(अ) दिनांक 14-04-1987
15. सा. का. नि. 504 दिनांक 30-09-1993
16. सा. का. नि. 483(अ) दिनांक 07-08-1998
17. सा. का. नि. 695(अ) दिनांक 20-11-1998

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS**  
(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2003

**G.S.R. 36(E).**— In exercise of powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, the following Proviso shall be inserted at the end of clause (a) of sub-rule (10) of rule 12, namely:-

“Provided that where the claim of the dealer relates to sub-section (8) of section 8, the dealer shall get the Form H duly countersigned and certified by the authority specified by the Central Government authorising the establishment of the unit in the Special Economic Zone (notified under section 76A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)), that the sale of goods is for the purpose of establishing a unit in such zone, and the declaration in Form ‘H’ prescribed under this rule shall, *mutatis mutandis* apply to the declaration of the dealer and certificate to be obtained from the said authority notified under section 76A of the Customs Act, 1962.”

[No. 1/2003-ST F. No. 31/72/2001-ST]

ABHAY TRIPATHI, Director (Sales Tax)

**Foot Note :** The Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 were published vide SRO 644 dated 28.02.1957 and have been subsequently amended by:-

1. SRO 3613 dated 16-11-1957
2. SRO 896 dated 23-09-1958
3. SRO 2817 dated 04-11-1968
4. GSR 55(E) dated 09-02-1973
5. GSR 56(E) dated 09-02-1973
6. GSR 519(E) dated 13-12-1973
7. GSR 26(E) dated 01-02-1974
8. GSR 597(E) dated 30-12-1975
9. GSR 962(E) dated 30-12-1976
10. GSR 762(E) dated 17-12-1977
11. GSR 603(E) dated 30-12-1978
12. GSR 640(E) dated 23-04-1979
13. GSR 264(E) dated 01-04-1984
14. GSR 395(E) dated 14-04-1987
15. GSR 504 dated 30-09-1993
16. GSR 483(E) dated 07-08-1998
17. GSR 695(E) dated 20-11-1998